



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 1027) पटना, बुधवार, 9 सितम्बर 2015

सं03ए-3-वे0पु0-(भत्ता)-08/2013-7922/वि0

वित्त विभाग

संकल्प

9 सितम्बर 2015

**विषय :-** राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01/07/2015 के प्रभाव से 113 प्रतिशत के स्थान पर 119 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0-4725 दिनांक 25/05/2015 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01/01/2015 के प्रभाव से 113 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 09/09/2015 को केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2015 के प्रभाव से 6 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए महंगाई भत्ता की दर को 113 प्रतिशत से बढ़ाकर 119 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है ।

3. उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि—

- (i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01/07/2015 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 113 प्रतिशत के स्थान पर 119 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता का भुगतान किया जायेगा ।
- (ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग पर महंगाई भत्ता आकलित किया जाएगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा ।

- (iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।
- (iv) उपर्युक्त महंगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।
- (v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जायेगा ।

4. इस बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिनांक 01/07/2015 से भुगतेय है और इसका भुगतान सितंबर, 2015 के वेतन में जोड़कर होगा, परंतु उसके पूर्व के महीनों के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह अक्टूबर, 2015 में किया जायेगा ।

5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी ।

**आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।**

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
एच0आर0 श्रीनिवास,  
सचिव (संसाधन) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1027-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>